



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2008/पौष 3, 1930

No. 673]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2008/PAUSA 3, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2008

सं. 135/2008-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 881(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) और (5) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 तथा 20 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 30/2008-सीमाशुल्क तारीख 3 मार्च, 2008, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 161(अ) तारीख 3 मार्च, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 6 के सामने, स्तंभ (5) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “कोरिया आरपी” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[फा. सं. 354/137/2007-टीआरयू]

उन्मेष वास, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना 30/2008-सीमाशुल्क तारीख 3 मार्च, 2008 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), सा.का.नि. 161(अ), तारीख 3 मार्च, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2008

No. 135/2008-Customs

G.S.R. 881(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 30/2008-Customs, dated the 3rd March, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 161(E), dated the 3rd March, 2008, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 6, in column (5), for the existing entry, the entry "Korea RP" shall be substituted.

[F. No. 354/137/2007-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

Note: The principal notification number 30/2008-Customs dated the 3rd March, 2008 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) of vide number G.S.R. 161(E), dated the 3rd March, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2008

सं. 49/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 882(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क का उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं014/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन टी), तारीख 1 मार्च, 2008 को, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में उसी तारीख को सा0का0न0 सं0 147 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाले माल को, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है, उस माल के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिसको उक्त धारा 4क की उपधारा के उपबंध लागू होंगे और उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित खुदरा विक्रय कीमत की प्रतिशतता को उपशमन के रूप में अनुज्ञात करती है।

सारणी

क्रम सं०	पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन	खुदरा विक्रय कीमत की प्रतिशतता के रूप में उपशमन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	17 या 21	अन्य चीनी की निर्मितियां	35
2.	1702	चीनी के शर्बत जिसमें सुरुचिकारक या रंजक पदार्थ नहीं मिलाया गया है, कृत्रिम शहद, चाहे प्राकृतिक शहद के साथ मिश्रित हो या नहीं, भुनी चीनी	35
3.	1704	गोद, चाहे वह चीनी विलेपित हो या नहीं (जिसके अंतर्गत चिविंग गम, बबल गम और वैसे ही पदार्थ भी हैं)	35
4.	1704 90	सफेद चाकलेट से भिन्न, सभी माल	30
5.	1704 90	सफेद चाकलेट	35
6.	1805 00 00 या 1806 10 00	कोको चूर्ण, चाहे उसमें चीने या अन्य मधुरित पदार्थ मिलाया गया है या नहीं	30
7.	1806	किसी रूप में चाकलेट चाहे उसमें गिरी, फल गिरी या फल है या नहीं, जिसके अंतर्गत पेय चाकलेट भी है	30
8.	1806	कोको वाली अन्य खाद्य निर्मितियां	30
9.	1901 20 00 या 1901 90	शीर्ष संख्या 1905 के बेक्स वेयर को तैयार करने में काम आने वाले डफ से भिन्न, सभी माल	30
10.	1904	टैरिफ मद 1904 20 00 के अंतर्गत आने वाले माल के भिन्न सभी माल	30
11.	1904 20 00	सभी माल	30
12.	1905 31 00 या 1905 90 20	बिस्कुट	30
13.	1905 32 11 या 1905 32 90	चाकलेट से विलेपित या चाकलेट वाले वेफल और वेफर	30
14.	1905 32 90	वेफर बिस्कुटों से भिन्न, सभी माल	35
15.	1905 32 19 या 1905 32 90	वेफर बिस्कुट	30
16.	2101 11 या 2101 12 00	काफी के निष्कर्षण, सत और सांद्र और उनके निष्कर्षण, सत या सांद्र के आधार सहित या काफी के आधार सहित निर्मितियां	30
17.	2102	सभी माल	30
18.	2106 90 11	शर्बत	25
19.	2106 90 20	15% से अनधिक सुपारी वाले पान मसाले से भिन्न सभी माल	40

20.	2106 90 20	15% से अनधिक सुपारी वाला पान मसाला	20
21.	2403	तंबाकू युक्त पान मसाला	50
22.	2106 90 30	सभी माल	30
23.	2106 10 00, 2106 90 50, 2106 90 70, 2106 90 80, 2106 90 91 या 2106 90 99	सभी माल	35
24.	2201 या 2202	खनिज जल	45
25.	2201 या 2202	वातित जल	40
26.	2209	एसिटिक अम्ल से अभिप्राप्त सिरका के लिए सिरका और उसके अनुकल्प	35
27.	2403 99 10, 2403 99 20 या 2403 99 30	सभी माल	50
28.	2523 21 00 या 2523 29	सफेद सीमेंट चाहे वह कृत्रिम रूप से रंजित हो या नहीं और चाहे उसमें शीघ्रता से कठोर बनाने वाले तत्व हों या नहीं	30
29.	2710	स्नेहक तेल और स्नेहक निर्मितियां	35
30.	3004	औषधिद्रव्य उनसे भिन्न जो अनन्य रूप से आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होमियोपैथिक या जैव रसायन प्रणाली से उपयोग में लाए जाते हैं स्पष्टीकरण— इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए “खुदरा बिक्री मूल्य” से अभिप्राय उस बिक्री मूल्य से है जो (औषधि मूल्य) नियंत्रण आदेश, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत विनिर्माता द्वारा दर्शाया गया है ।	35
31.	3204 20	ऐसी किस्म के संश्लिष्ट कार्बनिक उत्पाद प्रतिदीप्तिशील प्रभामन कर्मक या संदीपक के रूप में उपयोग किए जाते हैं	30
32.	3206	संदीपक के रूप में प्रयुक्त किस्म के पिगमेंट और अकार्बनिक उत्पादों से भिन्न सभी माल	30
33.	3208, 3209 या 3210	सभी माल	30
34.	3212 90 20	घरेलू या प्रयोगशाला प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किस्म के डाई और अन्य रंजक पदार्थ जो उसी रूप में या लघु पैकिंग में रखे जाते हैं	35
35.	3213	सभी माल	35
36.	3214	सभी माल	35
37.	3303, 3304, 3305 या 3307	सभी माल	35

38.	3306 10 20	दूधपेस्ट	30
39.	3401 19 या 3401 20 00	साबुन (कागज, वाडिंग, नमदा और अयुतित, संसंचित, विलेपित, साबुन या अपमार्जक से विलेपित या आच्छादित से भिन्न)	30
40.	3401 11, 3401 19 या 3402	टैरिफ मद 3402 90 20 के अंतर्गत आने वाले माल से भिन्न कार्बनिक पृष्ठ सक्रिय उत्पाद और छड़, टिकिया साँघें में ढाले हुए टुकड़े या आकार में साबुन के रूप में प्रयुक्त निर्मितियां	30
41.	3403	स्नेहक निर्मितियां (जिसके अंतर्गत स्नेहकों पर आधारित कर्तन-तेल निर्मितियां, बोल्ट या नट विमोचन निर्मितियां, जंगरोधी या संक्षारण रोधी निर्मितियां और सूत्र विमोचन निर्मितियां हैं)	30
42.	3405	सभी माल	30
43.	3506	निर्मित ग्लू और अन्य निर्मित आसंजक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है	35
44.	3702	एक्स रे और अतनुदीर्घाक्षित चलचित्र फिल्मों से भिन्न सभी माल	35
45.	3808	कीटनाशी, कृतकनाशी, कवकनाशी, शक्कनाशी, अंकुरणरोधी और नाशक मार	30
46.	3808	विसंक्रामक और वैसे ही उत्पाद	35
47.	3808 93 40	पादप वृद्धि विनियामक	25
48.	3814 00 10	स्थानर	35
49.	3819	सभी माल	35
50.	3820 00 00	हिमीकरणरोधी निर्मितियां और निर्मित वेहिमन तरल	35
51.	3824 90 24 या 3824 90 90	स्टैशिल शोधक और अन्य शोधक तरल, स्याहीमेट, जिन्हें खुदरा विक्रय के लिए पैकिंग में रखा गया है	35
52.	3919	प्लास्टिक के स्वतः चिपकने वाले टेप	35
53.	3923 या 3924	विद्युत्तरोधी बर्तन	40
54.	4816	कार्बन कागज, स्वतः प्रतिलिपिकरण कागज, कागज के द्वितीय प्रतिलिपिकरण स्टैशिल	35
55.	4818	टैरिफ मद 4818 50 00 के अंतर्गत आने वाले माल से भिन्न कागज की लुग्दी, कागज, सैलूलाज फ़ाइबर के जाल के रूमाल, निर्मलन उत्तक, तौलिया	35
56.	64	निम्नलिखित माल अर्थात् — (i) 250 रु० से अधिक और 750 रु० से अनधिक प्रति जोड़े के फुटकर विक्रय कीमत के पैरों के जूतादि (ii) सभी अन्य जूतादि	35 40

57.	6506 10	सुरक्षात्मक सिर के पहनावे	35
58.	6907	कांचाकनित टाइलें, चाहे पालिश की गई हैं या नहीं	40
59.	6908	कांचित टाइलें	40
60.	7321	एलपीजी गैस स्टोवों से भिन्न पकाने के साधित्र और प्लेट ऊष्मक (केवल बर्नरों सहित, ग्रिल या ओवन जैसे अन्य कृत्यों रहित)	35
61.	7321	एलपीजी गैस स्टोव (केवल बर्नरों सहित, ग्रिल या ओवन जैसे अन्य कृत्यों के बिना)	30
62.	7323 या 7615 19 10	प्रेशर कुकर	25
63.	7324	लोहा या इस्पात के स्वच्छता बर्तन	35
64.	7418 20 10	तांबे के स्वच्छता बर्तन	35
65.	8212	रेजर और रेजर ब्लेड (पट्टियों में रेजर ब्लेड ब्लैकों सहित)	35
66.	8305 20 00 या 8305 90 20	आधार धातु की पट्टियों में स्टेपल, पेपर क्लिप	35
67.	8414 51 या 8414 59	विद्युत पंखे	35
68.	8415	3 टन तक की क्षमता वाल खिड़की दरवाजे वायु वातानुकूलक और स्प्लिट वातानुकूलक	25
69.	8418	प्रशीतित	35
70.	8421 21	जल छानित्र और जल शोधक, घरेलू प्रयोजन के उपयोग की किस्म के	30
71.	8422 11 00 या 8422 19 00	डिश वांशिंग मशीन	30
72.	8443	अनुकृति मशीन	35
73.	8443 31 00 या 8443 32	प्रिंटर जो प्रतिलिपिकरण या अनुकृतिकरण पारेषण के कृत्यों सहित हों या नहीं	20
74.	8443 99 51	स्याही कार्टिज प्रिंट हेड असेंबली सहित	20
75.	8450	गृह उपयोगी या धोवन शाला प्रकार की वांशिंग मशीन जिनके अंतर्गत धुलाई और शुष्कन मशीनें हैं	35
76.	8469	टाइपराइटर	30
77.	8470	उपशीर्ष 8470 50 और 8470 90 के अंतर्गत आने वाले माल से भिन्न संगणक मशीन और जेबी आकार के आंकडा अभिलेखक, संगणन कृत्यों सहित पुनरुत्पादक और संप्रदश	35
78.	8471 30	सभी माल	20
79.	8471 60	सभी माल	20
80.	8472 90 10	स्टेप्लिंग मशीनें	35

81.	8506	टैरिफ मद 8506 90 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल	35
82.	8508	टैरिफ मद 8508 70 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल	35
83.	8509	टैरिफ मद 8509 90 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल	35
84.	8510	टैरिफ मद 8510 90 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल	35
85.	8513	टैरिफ मद 8513 90 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल	30
86.	8516	विद्युत तात्कालिक या भंडारण जल तापित्र और निमज्जन तापित्र, विद्युत स्पेस तापन उपकरण और मृदा तापन उपकरण, विद्युत तापीय केश प्रसाधन उपकरण (उदाहरणार्थ केश शुष्कित्र, केशवलयित्र, वलीमन टांग तापित्र) और हस्त शुष्कित्र; विद्युत मस्त्रण इस्त्री, इसी प्रकार के अन्य विद्युत तापीय साधित्र जिनका उपयोग घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता है	35
87.	8517	टेलीफोन सेट जिसके अंतर्गत कार्डलेस हैंडसेट सहित टेलीफोन भी हैं, वीडियो गेम	35
88.	8517 62 30	मॉडम (मोडुलेटर्स - डिमोडुलेटर्स)	20
89.	8517 69 60	इंटरनेट से पहुंच प्राप्त करने के लिए सेट टाप बाक्स	20
90.	8519	एमपी 3 प्लेयर या एमपीइजी 4 प्लेयर से भिन्न सभी माल	35
91.	8521	एमपी 3 प्लेयर या एमपीइजी 4 प्लेयर से भिन्न सभी माल	35
92.	85	एमपी 3 प्लेयर या एमपीइजी 4 प्लेयर	30
93.	8523	अनभिलिखित श्रव्य कैसेट, अभिलिखित या अनभिलिखित दृश्य कैसेट, अभिलिखित या अनभिलिखित चुंबकीय डिस्क	35
94.	8527	पेजर	30
95.	8527	ट्रांजिस्टर सेट सहित रेडियो सेट, जिनमें रेडियो संकेत प्राप्त करने की सुविधा रखते हैं और एक ही कक्षिका में उसे किसी अन्य अतिरिक्त सुविधा के बिना जैसे ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन या घड़ी के साथ संयुक्त हैं संपरिवर्तित करने की सुविधा है	30
96.	8527	रेडियो प्रसारण के लिए अभिग्रहण उपकरण, चाहे वे एक ही कक्षिका में ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण या घड़ी के साथ संयुक्त हैं या नहीं (क्रम संख्या 95 के अंतर्गत आने वाले माल से भिन्न)	35

97.	8528	टेलीविजनग्राही (जिसके अंतर्गत वीडियो मॉनिटर और वीडियो प्रोजेक्टर भी हैं) चाहे वे रेडियो प्रसारण ग्राहियों या ध्वनि अथवा वीडियो अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण के साथ सहयुक्त हैं या नहीं	30
98.	8528	एकमात्र रूप से या मुख्य रूप से किसी स्वचालित रूप से डाटा प्रसंस्करण मशीन में प्रयुक्त एक प्रकार का मॉनीटर	20
99.	8528 71 00	टेलीविजन सेटों के लिए सेट टाप बाक्स	20
100.	8536	टैरिफ मद 8536 70 00 के अंतर्गत आने वाले माल से भिन्न सभी माल	35
101.	8539	ऑटोमोबाइल के लिए लैंप से भिन्न निम्नलिखित माल, अर्थात् (i) टैरिफ मद 8539 31 10 के अंतर्गत आने वाले कम्पैक्ट प्रतिदीप्ति लैंप (सीएफएल) (ii) सभी अन्य माल	35 35
102.	9006	फोटोचित्र कैमरे (चलचित्र कैमरे से भिन्न)	30
103.	9101 या 9102	ब्रेल घड़ियों से भिन्न सभी माल	30
104.	9103 या 9105	घड़ियां	40
105.	9603 21 00	टूथब्रश	25
106.	9612	सभी माल	30
107.	9617	निर्वात प्लास्क	35
108.	अन्य शीर्ष	ऑटोमोबाइल के पुर्जे, संघटक और समुच्चय	30

स्पष्टीकरण-1 : इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, क्रम सं० 30 को छोड़कर 'खुदरा विक्रय कीमत' से वह अधिकतम कीमत अभिप्रेत है जिस पर उत्पाद शुल्क माल का पैक के रूप में अंतिम उपभोक्ता को विक्रय किया जा सकेगा और उसके अंतर्गत, सभी कर स्थानीय या अन्यथा, भाड़ा, परिवहन प्रभार, व्यौहारियों को संदेय कमीशन और विज्ञापन, परिदान, पैकिंग, अग्रेषण मददे सभी प्रभार और उसी प्रकार के प्रभार सम्मिलित हैं जहां ऐसे विक्रय के लिए कीमत एकमात्र प्रतिफल है ।

[फा. सं. 334/8/2008-टीआरयू]

उन्मेश शरद वाघ, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2008

No. 49/2008-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 622(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 4A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) the Central Government, in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.14/2008-Central Excise (N.T.), dated the 1st March, 2008, published in the Gazette of India Extraordinary, vide number G.S.R.147(E) of the same date, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby specifies the goods mentioned in Column (3) of the Table below and falling under Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, as the goods to which the provisions of sub-section (2) of said section 4A shall apply, and allows as abatement the percentage of retail sale price mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

S.No	Chapter, heading, sub-heading or tariff item	Description of goods	Abatement as a percentage of retail sale price
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	17 or 21	Preparations of other sugars	35
2.	1702	Sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel	35
3.	1704	Gums, whether or not sugar coated (including chewing gum, bubblegum and the like)	35
4.	1704 90	All goods, other than white chocolate	30
5.	1704 90	White chocolate	35
6.	1805 00 00 or 1806 10 00	Cocoa powder, whether or not containing added sugar or other sweetening matter	30
7.	1806	Chocolates in any form, whether or not containing nuts, fruit kernels or fruits, including drinking chocolates	30

8.	1806	Other food preparations containing cocoa	30
9.	1901 20 00 or 1901 90	All goods, other than Dough for preparation of bakers' ware of heading No.1905	30
10.	1904	All goods, other than goods falling under tariff item 1904 20 00	30
11.	1904 20 00	All goods	30
12.	1905 31 00 or 1905 90 20	Biscuits	30
13.	1905 32 11 or 1905 32 90	Waffles and wafers, coated with chocolate or containing chocolate	30
14.	1905 32 90	All goods, other than wafer biscuits	35
15.	1905 32 19 or 1905 32 90	Wafer biscuits	30
16.	2101 11 or 2101 12 00	Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee	30
17.	2102	All goods	30
18.	2106 90 11	Sharbat	25
19.	2106 90 20	All goods, other than pan masala containing not more than 15% betel nut	40
20.	2106 90 20	Pan masala containing not more than 15% betel nut	20
21.	2403	Pan masala containing tobacco	50
22.	2106 90 30	All goods	30
23.	2106 10 00, 2106 90 50, 2106 90 70, 2106 90 80, 2106 90 91 or 2106 90 99	All goods	35
24.	2201 or 2202	Mineral waters	45
25.	2201 or 2202	Aerated waters	40
26.	2209	Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid	35
27.	2403 99 10, 2403 99 20 or 2403 99 30	All goods	50

28.	2523 21 00 or 2523 29	White cement, whether or not artificially coloured and whether or not with rapid hardening properties	30
29.	2710	Lubricating oils and Lubricating preparations	35
30.	30	Medicaments, other than those which are exclusively used in Ayurvedic, Unani, Siddha, Homeopathic or Bio-chemic systems <i>Explanation.</i> — For the purposes of this entry, “retail sale price” means the retail price displayed by the manufacturer under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 1995.	35
31.	3204 20	Synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as a luminophores	30
32.	3206	All goods other than pigments and inorganic products of a kind used as luminophores	30
33.	3208, 3209 or 3210	All goods	30
34.	3212 90 20	Dyes and other colouring matter put up in forms or small packing of a kind used for domestic or laboratory purposes	35
35.	3213	All goods	35
36.	3214	All goods	35
37.	3303, 3304, 3305 or 3307	All goods	35
38.	3306 10 20	Toothpaste	30
39.	3401 19 or 3401 20 00	Soap (other than paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent)	30
40.	3401 11, 3401 19 or 3402	Organic surface active products and preparations for use as soap in the form of bars, cakes, moulding pieces or shapes, other than goods falling under 3402 90 20	30
41.	3403	Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparation and mould release preparations based on lubricants)	30
42.	3405	All goods	30
43.	3506	Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included	35

44.	3702	All goods other than for X-ray and unexposed cinematographic films	35
45.	3808	Insecticides, fungicides, herbicides, weedicides and pesticides	30
46.	3808	Disinfectants and similar products	35
47.	3808 93 40	Plant growth regulator	25
48.	3814 00 10	Thinners	35
49.	3819	All goods	35
50.	3820 00 00	Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids	35
51.	3824 90 24 or 3824 90 90	Stencil correctors and other correcting fluids, ink removers put up in packings for retail sale	35
52.	3919	Self adhesive tapes of plastics	35
53.	3923 or 3924	Insulated ware	40
54.	4816	Carbon paper, self-copy paper, duplicator stencils, of paper	35
55.	4818	Cleansing or facial tissues, handkerchiefs and towels, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, other than goods falling under 4818 50 00	35
56.	64	The following goods namely: - (i) Footwear of retail sale price exceeding Rs 250/- and not exceeding Rs 750/- per pair (ii) All other foot wear	35 40
57.	6506 10	Safety headgear	35
58.	6907	Vitrified tiles, whether polished or not	40
59.	6908	Glazed tiles	40
60.	7321	Cooking appliances and plate warmers, other than LPG gas stoves (with burners only, without other functions such as, grills or oven)	35
61.	7321	LPG gas stoves (with burners only, without other functions such as, grills or oven)	30
62.	7323 or 7615 19 10	Pressure Cookers	25
63.	7324	Sanitary ware of iron or steel	35
64.	7418 20 10	Sanitary ware of copper	35

65.	8212	Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips)	35
66.	8305 20 00 or 8305 90 20	Staples in strips, paper clips, of base metal	35
67.	8414 51 or 8414 59	Electric fans	35
68.	8415	Window room air-conditioners and split air conditioners of capacity upto 3 tonnes	25
69.	8418	Refrigerators	35
70.	8421 21	Water filters and water purifiers, of a kind used for domestic purposes	30
71.	8422 11 00 or 8422 19 00	Dish washing machines	30
72.	8443	Facsimile machines	35
73.	8443 31 00 or 8443 32	Printer whether or not combined with the functions of copying or facsimile transmission	20
74.	8443 99 51	Ink cartridges, with print head assembly	20
75.	8450	Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry	35
76.	8469	Typewriters	30
77.	8470	Calculating machines and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions, other than goods falling under sub-heading 8470 50 and 8470 90	35
78.	8471 30	All goods	20
79.	8471 60	All goods	20
80.	8472 90 10	Stapling machines	35
81.	8506	All goods, other than parts falling under tariff item 8506 90 00	35
82.	8508	All goods, other than parts falling under tariff item 8508 70 00	35
83.	8509	All goods, other than parts falling under tariff item 8509 90 00	35
84.	8510	All goods, other than parts falling under tariff item 8510 90 00	35

85.	8513	All goods, other than parts falling under tariff item 8513 90 00	30
86.	8516	Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electro-thermic hairdressing apparatus (for example, hair dryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electro-thermic appliances of a kind used for domestic purposes.	35
87.	8517	Telephone sets including telephones with cordless handsets; video phones;	35
88.	8517 62 30	Modems (modulators – demodulators)	20
89.	8517 69 60	Set top boxes for gaining access to internet	20
90.	8519	All goods, other than MP3 Player or MPEG 4 Player	35
91.	8521	All goods, other than MP3 Player or MPEG 4 Player	35
92.	85	MP3 Player or MPEG 4 Player	30
93.	8523	Unrecorded audio cassettes; recorded or unrecorded video cassettes; recorded or unrecorded magnetic discs	35
94.	8527	Pagers	30
95.	8527	Radio sets including transistors sets, having the facility of receiving radio signals and converting the same into audio output with no other additional facility like sound recording or reproducing or clock in the same housing or attached to it	30
96.	8527	Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock (other than goods covered at S.No.95)	35
97.	8528	Television receivers (including video monitors and video projectors) whether or not incorporating radio broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus	30
98.	8528	Monitors of a kind solely or principally used in an automatically data processing machine	20
99.	8528 71 00	Set top boxes for television sets	20

100.	8536	All goods, other than goods falling under tariff item 8536 70 00	35
101.	8539	The following goods, other than lamps for automobiles, namely:- (i) Compact Fluorescent Lamp (CFL) falling under tariff item 8539 31 10 (ii) All other goods	35 35
102.	9006	Photographic (other than cinematographic) cameras	30
103.	9101 or 9102	All goods, other than braille watches	30
104.	9103 or 9105	Clocks	40
105.	9603 21 00	Toothbrush	25
106.	9612	All goods	30
107.	9617	Vacuum flasks	35
108.	Any heading	Parts, components and assemblies of automobiles	30

Explanation.- For the purposes of this notification, except for S.No.30, "retail sale price" means the maximum price at which the excisable goods in packaged form may be sold to the ultimate consumer and includes all taxes, local or otherwise, freight, transport charges, commission payable to dealers and all charges towards advertisement, delivery, packing, forwarding and the like, as the case may be, and the price is the sole consideration for such sale.

[F. No. 334/8/2008-TRU]

UNMESH SHARD WAGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2008

सं. 60/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 883(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त (सं० 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 तथा धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 32/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 अगस्त, 2005 भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित सा०का०नि० 537 (अ), तारीख 17 अगस्त, 2005, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पैराग्राफ 3 में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्,-

“ क्षेत्राधिकारिक उत्पाद शुल्क अधिकारी, स्वयं इस बात पर संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त माल का उपयोग निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया गया है और उक्त माल पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण, खंड (गक) में निर्दिष्ट समापन प्रमाण-पत्र और उपयोग का प्रमाण-पत्र, प्रस्तुत करने पर, ऐसे मकान अथवा मकानों के निर्माण में आई लागत के 6 प्रतिशत के दर से प्रत्यर्पण स्वीकृत करेगा परंतु जिसकी अधिकतम राशि किसी भी मामले में 9 हजार रुपये प्रत्येक निर्मित हाऊस से अधिक नहीं होगी;

परंतु अंडमान और निकोबार द्वीप में अनुमोदित एजेंसी द्वारा घर निर्माण के संबंध में घर या घरों के निर्माण का रिफंड, घरों की कीमत का 6 प्रतिशत या रुपये 21500 प्रति घर के हिसाब से, जो भी कम हो, प्रदान किया जायेगा; तथा”

(ii) पैराग्राफ 4 में, निम्नलिखित परन्तुक अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्,-

“ परंतु अंडमान और निकोबार द्वीप में घरों के निर्माण का रिफंड, घरों की कीमत का 6 प्रतिशत या रुपये 21500 प्रति घर के हिसाब से, जो भी कम हो, प्रदान किया जायेगा ”

(iii) पैराग्राफ 5 में, अक्षर, अंक और शब्द “ 31 मार्च, 2008” के स्थान पर अक्षर, अंक और शब्द “ 31 दिसम्बर, 2008” प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

[फा. सं. 341/2/2005-टीआरयू (पार्ट)]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० 537 (अ), तारीख 17 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 27/2007 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 14 जून, 2007 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० 428 (अ) तारीख 14 जून, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2008

No. 60/2008-Central Excise

G.S.R. 883(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with section 91 and section 93 of the Finance (No.2) Act, 2004 (23 of 2004), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 32/2005-CENTRAL EXCISE, dated the 17th August, 2005, number G.S.R.537 (E), dated the 17th August, 2005, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 3, for clause (d), the following shall be substituted, namely:-

“The jurisdictional excise officer shall, after satisfying himself that the said goods have been used for the specified purposes, and on production of documentary evidence about the duty paid on the said goods, and the completion certificate and the consolidated consumption certificate as specified in clause (ca) above, by the approved construction agency, sanction the refund claim, at the rate of 6% of the cost of construction of such house or houses, as the case may be, subject to a maximum of Rs.9000 per house constructed:

Provided that in respect of houses constructed by the approved agency in Andaman and Nicobar Islands, the refund claim shall be sanctioned at the rate of 6% of the cost of construction of such house or houses, as the case may be, subject to a maximum of Rs.21500 per house constructed; and"

(ii) in paragraph 4, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in respect of houses constructed by the approved agency in Andaman and Nicobar Islands, the amount of refund shall not exceed 6% of the cost of construction or Rs.21500 per house constructed, whichever is less, in any case."

(iii) in paragraph 5, for the figures, letters and word "31" March, 2008", the figures, letters and word "31" December, 2008" shall be substituted.

[F. No. 341/2/2005-TRU (Pt.)]

UNMESH WAGH, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.537(E), dated the 17th August, 2005 and was last amended vide notification number 27/2007-Central Excise, dated the 14th June, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 428 (E), dated the 14th June 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2008

सं. 61/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 894(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, मोटर स्फिरिट (सामान्य रूप से पेट्रोल के नाम से ज्ञात) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संबद्ध माल भी कहा गया है) की, जो पहली अनुसूची के शीर्ष 27.10 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (1985 का 5) की दूसरी अनुसूची (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अनुसूचियाँ कहा गया है), के अंतर्गत आता है, जिसे किसी तेल परिष्करण में विनिर्मित किया गया है और वहां से निकासी की गई है अथवा किसी राष्ट्रीयकृत भांडागार से निकासी की गई है, जो इथनॉल मिश्रित पेट्रोल अर्थात् ऐसे मिश्रण में प्रयोग के लिए आशयित है, जिसमें—

(क) परिमाण द्वारा 90 प्रतिशत मोटर स्फिरिट (सामान्य रूप से पेट्रोल के नाम से ज्ञात) और 10 प्रतिशत इथनॉल अंतर्विष्ट है; और

(ख) जो भारत मानक ब्यूरो विनिर्देश 2796 के अनुरूप है,

उक्त अनुसूचियों के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से जो उस शुल्कसे अधिक है जो ऐसे माल पर उक्त अनुसूचियों के अधीन उद्ग्रहणीय होता, यदि विनिर्माता द्वारा ऐ माल का, हटाए जाने के समय या ऐसे माल के हटाए जाने के निकटतम किसी अन्य समय, परिदाउन के लिए विक्रय किया जाता, जहां विनिर्माता और क्रेता संबंधित नहीं है और कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है।

[फा. सं. 354/62/2008-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2008

No. 61/2008-Central Excise

G.S.R. 884(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby exempts Motor Spirit (commonly known as petrol) (hereinafter referred to as said goods), falling under heading No.27.10 of the First Schedule and the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) (hereinafter referred to as said Schedules), manufactured in and cleared from an oil refinery or cleared from a registered warehouse, intended for use in ethanol blended petrol, that is, a blend,

- a) consisting, by volume, of 90% Motor spirit, (commonly known as petrol) and of 10% ethanol; and
b) conforming to Bureau of Indian Standards specification 2796

from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Schedules, as is in excess of the duty that would have been leviable on such goods under the said Schedules, if sold by the manufacturer for delivery at the time of removal of such goods or at any other time nearest to the removal of such goods, where the manufacturer and the buyer are not related and the price is the sole consideration.

[F. No. 354/62/2008-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2008

सं. 62/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 885(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 111 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, 10 प्रतिशत इथनॉल मिश्रित पेट्रोल अर्थात् ऐसे मिश्रण को,—

(क) जिसमें परिमाण द्वारा 90 प्रतिशत मोटर स्प्रिट (सामान्य पेट्रोल के नाम से ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क संदत्त कर दिया गया है और 10 प्रतिशत इथनॉल जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क संदत्त कर दिया गया है,

अन्तर्विष्ट है; और

(ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 2796 के अनुरूप है,

उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

स्पष्टीकरण:— इस छूट के प्रयोजनों के लिए “समुचित उत्पाद शुल्क” से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (1986 का 5) का पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क धारा 111 वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट अधिसूचना के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अभिप्रेत होगा।

[फा. सं. 354/62/2008-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2008

No. 62/2008-Central Excise

G.S.R. 885(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 111 of the Finance (No 2) Act, 1998 (21 of 1998) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts 10% ethanol blended petrol that is a blend, -

- a) consisting, by volume, of 90% Motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and, of 10% ethanol on which the appropriate duties of excise have been paid; and
- b) conforming to Bureau of Indian Standards specification 2796,

from the whole of the additional duty of excise leviable thereon.

Explanation. - For the purposes of this exemption "appropriate duties of excise" shall mean the duties of excise leviable under the First Schedule and the Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), the additional duty of excise leviable under section 111 of the Finance (No.2) Act, 1998 (21 of 1998), and the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), read with any relevant exemption notification for the time being in force.

[F.No. 354/62/2008-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2008

सं. 63/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 886(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 28/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13 मई, 2002 में, जो भारत के राजपत्र असाधारण में सं० सा०का०नि० 361 (अ), तारीख 13 मई, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेगी :-

(1)	(2)	
"4	10 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल अर्थात् ऐसा मिश्रण,- (क) जिसमें परिणाम द्वारा 90 प्रतिशत मोटर स्प्रिट (सामान्य पेट्रोल के नाम से ज्ञात अन्तर्विष्ट है) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क संदत्त किया जा चुका है और 10 प्रतिशत इथनॉल अन्तर्विष्ट है जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क संदत्त किया जा चुका है; और	कुछ नहीं

	<p>(ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 2796 के अनुरूप है,</p> <p>स्पष्टीकरण:- इस छूट के प्रयोजनों के लिए “ समुचित उत्पाद शुल्क ” से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (1986 का 5) का पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क धारा 111 वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट अधिसूचना के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अभिप्रेत होगा ।</p>	
--	---	--

[फा. सं. 354/62/2008-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० 28/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13 मई, 2002 भारत के राजपत्र में सा०का०नि० 361 (अ), तारीख 13 मई, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 40/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 4 अगस्त, 2004 में सा०का०नि० 502 (अ) तारीख 4 अगस्त, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2008

No. 63/2008-Central Excise

G.S.R. 886(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 28/2002-Central Excise, dated the 13th May, 2002 and published in the Gazette of India vide number G.S.R.361 (E), dated the 13th May 2002, namely:-

In the said notification, in the Table, after S. No. 3 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“4	<p>10% ethanol blended petrol that is a blend , -</p> <p>(a) consisting, by volume, of 90% Motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and, of 10% ethanol on which the appropriate duties of excise have been paid, and</p> <p>(b) conforming to Bureau of Indian Standards specification 2796.</p> <p><i>Explanation:</i> For the purposes of this exemption “appropriate duties of excise” shall mean the duties of excise leviable</p>	Nil”.

	under the First Schedule and Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), the additional duty of excise leviable under section 111 of the Finance (No.2) Act, 1998 (21 of 1998) and the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), read with any relevant exemption notification for the time being in force.	
--	--	--

[F. No. 354/62/2008-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

Note: The principal notification No. 28/2002-Central Excise, dated the 13th May, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R 361 (E), dated the 13th May 2002 and was last amended vide notification No.40/2004-Central Excise, dated the 4th August, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary vide G.S.R 502 (E) dated the 4th August, 2004.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2008

सं. 64/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 887(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 4/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित सा०का०नि० 94 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं० 1ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“1घ	2523 10 00	सभी माल	रूपये 300 प्रति टन	

(ii) क्रम सं० 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“24क.	2710	10 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित पेट्रोल जो निम्नलिखित से मिश्रित की गई है:- (क) परिणाम में मोटर स्प्रिट का 90 प्रतिशत (जो सामान्य पेट्रोल के नाम से ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क संदत्त कर दिया गया है और 10 प्रतिशत इथनॉल जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क संदत्त कर दिया गया है; और	कुछ नहीं	”

		(ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश 2796 के अनुरूप है, स्पष्टीकरण:- इस छूट के प्रयोजनों के लिए “ समुचित उत्पाद शुल्क ” से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (1986 का 5) की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 111 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अभिप्रेत होगा ।		
--	--	--	--	--

[फा. सं. 354/62/2008-टीआरयू]

उन्मेष वाघ, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं० 4/2006-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा०का०नि० 94 (अ), तारीख 1 मार्च, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 58/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 7 दिसम्बर, 2008 में सा०का०नि० 840 (अ) तारीख 7 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2008

No. 64/2008-Central Excise

G.S.R. 887(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 94(E) of the same date, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(i) after S.No. 1C and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“ 1D	2523 10 00	All goods	Rs 300 per tonne	—”

(ii) after S. No. 24 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24A.	2710.	<p>10% ethanol blended petrol that is a blend,-</p> <p>(a) consisting, by volume, of 90% Motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 10% ethanol on which the appropriate duties of excise have been paid; and</p> <p>(b) conforming to Bureau of Indian Standards specification 2796.</p> <p><i>Explanation.</i>-For the purposes of this exemption "appropriate duties of excise" shall mean the duties of excise leviable under the First Schedule and Second Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986), the additional duty of excise leviable under section 111 of the Finance (No.2) Act, 1998 (21 of 1998) and the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), read with any relevant exemption notification for the time being in force.</p>	Nil	"

[F. No. 354/62/2008-TRU]

UNMESH WAGH, Under Secy.

Note: The principal notification No.4/2006-Central Excise, dated the 1st March, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R.94 (E), dated the 1st March, 2006, and was last amended by notification No. 58/2008-Central Excise, dated the 7th December, 2008 published vide number G.S.R. 840(E), dated the 7th December 2008.